

**:-प्रेस नोट दिनांक 16.07.2021:-**

**थाना किला जनपद बरेली ।**

**थाना किला #bareillypolice द्वारा अवैध मोबिल आयल बनाने व बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश व 550 लीटर नकली अवैध मोबिल आयल व आयल बनाने का सामान व उपकरण बरामद कर दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन मे अवैध मोबिल आयल की तरस्करी व रोकथाम के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय जनपद बरेली के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक किला के नेतृत्व में उ0नि0 बृजपाल सिंह, हे0का0 349 चमन सिंह, का0 114 अनिल कुमार, का0 419 नवीन कुमार, का0 3073 अमर व म0का0 3136 खुशबू के द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला कटघर निकट हरी मिनार मस्जिद थाना किला जनपद बरेली अभियुक्त 1.हसीन अख्तर पुत्र दिलशाद हुसैन निवासी निकट हरी मिनार मस्जिद थाना किला जिला बरेली उम्र 50 वर्ष 2.वसीम अख्तर पुत्र हसीन अख्तर निवासी निकट हरी मिनार मस्जिद थाना किला जिला बरेली उम्र 21 वर्ष के घर से लगभग 550 लीटर अवैध मोबिल आयल व मोबिल आयल बनाने का सामान व उपकरण बरामद किया गया । अभियुक्त हसीन अख्तर व वसीम अख्तर उपरोक्त को गिरफ्तार कर थाना हाजा पर **मु0अ0सं0 197/2021 धारा 420/467/468 भादवि व 51/63 कापीराइट एक्ट व 102/103 ट्रेड मार्क अधिनियम** पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**अभियुक्तों का विवरण:-**

1. हसीन अख्तर पुत्र दिलशाद हुसैन निवासी निकट हरी मिनार मस्जिद थाना किला जिला बरेली उम्र 50 वर्ष ।
2. वसीम अख्तर पुत्र हसीन अख्तर निवासी निकट हरी मिनार मस्जिद थाना किला जिला बरेली उम्र 21 वर्ष ।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. 12 डिब्बे 05 लीटर भरे मोबिल आयल के सील पैक MOZOIL कम्पनी तथा खाली बिना रैपर 40 डिब्बे
2. 19 डिब्बे खाकी रंग 01 लीटर भरा मोबिल आयल का सील पैक RACEPLUS कम्पनी तथा खाली बिना रैपर के 40 डिब्बे
3. 21 डिब्बे सफेद रंग 01 लीटर भरा मोबिल आयल का HERO कम्पनी तथा खाली बिना रैपर व बिना ढक्कन के 140 डिब्बे

4. 24 डिब्बे नीले 05 लीटर भरे मोबिल आयल के सील पैक MOZOIL कम्पनी तथा खाली बिना रैपर बिना ढक्कन के 40 डिब्बे
5. 20 डिब्बे हरा रंग 01 लीटर भरा मोबिल आयल का ISZOU कम्पनी
6. 500 ग्राम की बोतल बिना रैपर
7. 05 कट्टे ग्रीस (कुल 75 किलोग्राम)
8. करीब 3000 स्टीगर बारकोड सहित विभिन्न कम्पनी के
9. 01 कट्टा ढक्कन विभिन्न प्रकार के (कुल वजन 08 किलो)
10. 03 ड्रम मोबिल आयल (1 ड्रम पूरा भरा हुआ तथा 2 ड्रम 1/4 भरे हुए कुल करीब 450 लीटर)
11. 200 गत्ता (पैकिंग हेतु)

**बरामद उपकरण:-** एक पम्प, 01 मशीन पैकिंग, 01 लीटर- 1, 5 लीटर-01 , 3 कीप लोहे के, 2 कीप प्लास्टिक , 2 छलनी, 01 पाइप प्लास्टिक , नीले रंग को मोहर For AKHTAR LUBRICANTS के नाम से ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार तिवारी थाना किला जनपद बरेली ।
2. उ0नि0 बृजपाल सिंह थाना किला जनपद बरेली ।
3. हे0का0 349 चमन सिंह थाना किला जनपद बरेली ।
4. का0 114 अनिल कुमार थाना किला जनपद बरेली ।
5. का0 419 नवीन कुमार थाना किला जनपद बरेली ।
6. का0 3073 अमर थाना किला जनपद बरेली ।
7. म0का0 3136 खुशबू थाना किला जनपद बरेली ।

प्रभारी निरीक्षक किला  
जनपद बरेली ।

उत्तर

प्रदेश

पुलिस